



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण 1941 (श10)

(सं० पटना 975) पटना, वृहस्पतिवार, 22 अगस्त 2019

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

13 अगस्त 2019

सं० 07/नि.(विधि - 05) रा.स.स. (परिसमापन) - 02/2013-7711—चूंकि अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 5680 दिनांक 29.06.2018 द्वारा परिसमापनाधीन बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग, पटना-7 के परिसमापन की कार्यवाही के सूचारु रूप से संचालन हेतु परिसमापक को सहायता प्रदान करने के लिए अधिनियम, 1996 की धारा-45(क) के तहत श्री संजय कुमार, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कार्यालय उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, पटना एवं मगध प्रमंडल, पटना को सहायक परिसमापक नियुक्त किया गया था।

और चूंकि श्री संजय कुमार, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कार्यालय उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, पटना एवं मगध प्रमंडल, पटना के स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, पटना-सह-परिसमापक, बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग, पटना-7 को परिसमापन की कार्यवाही के सूचारु रूप से संचालन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सहायक परिसमापक की नियुक्ति की आवश्यकता है।

अतः मैं, रचना पाटिल, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना सम्यक विचारोपरान्त बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45(क) के तहत जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरटिव सोसाइटी लि., सकरी गली गुलजारबाग, पटना-7 (विघटित) का सहायक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

नियुक्त सहायक परिसमापक परिसमापन की कार्यवाही में परिसमापक द्वारा आवंटित कार्यों/दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

आदेश से,  
**रचना पाटिल,**  
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 975-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>